



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी प्रेस नोट

दिनांक-01.09.2022

थाना शिवपुर पुलिस टीम द्वारा एयरटेल कंपनी में नौकरी देने के नाम पर धोखाधड़ी के मामले में वांछित अभियुक्त रणधीर सिंह कुशवाहा को 08 अदद कूटरचित फर्जी दस्तावेज, 13 अदद विभिन्न नामों की मोहरों, 02 अदद आईडी कार्ड, 02 अदद मोबाइल फोन, 04 अदद सिम कार्ड व 01 अदद लैपटॉप आदि के साथ गिरफ्तार किया गया

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी के वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन में एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त कैंट के पर्यवेक्षण में थाना शिवपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-354/2022 धारा 419/420/467/468/471/406 भादवि से संबंधित वांछित अभियुक्त रणधीर सिंह कुशवाहा पुत्र बृजमोहन सिंह कुशवाहा निवासी वार्ड नं0 8 ग्राम रूपौली पोस्ट कोइली थाना बयनहा जिला सीतामढ़ी बिहार हाल पता मकान मालिक SK श्रीवास्तव यमुना नगर कालोनी OYO होटल के बाये थाना शिवपुर वाराणसी को रेलवे क्रॉसिंग शिवपुर कस्बा से दिनांक 31.08.2022 को समय 21.15 बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त सम्बन्ध में थाना शिवपुर पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण-दिनांक-29.08.2022 को वादी मुकदमा श्री अमित कुमार शर्मा पुत्र श्री रमाकान्त शर्मा निवासी SH6/41 K-1 कठवतिया शिवपुर वाराणसी ने अभियुक्त रणधीर सिंह कुशवाहा के द्वारा फर्जी कागजात बना कर लोगो को विश्वास में ले कर नौकरी देने के नाम पर पैसा हड़पने संबंध में लिखित प्रार्थना पत्र दिया, जिसके आधार पर थाना शिवपुर में मु0अ0सं0 354/2022 धारा 419/420/467/468/471/406 भादवि पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

रणधीर सिंह कुशवाहा पुत्र बृजमोहन सिंह कुशवाहा निवासी वार्ड नं0 8 ग्राम रूपौली पोस्ट कोइली थाना बयनहा जिला सीतामढ़ी बिहार हाल पता मकान मालिक SK श्रीवास्तव यमुना नगर कालोनी OYO होटल के बाये थाना शिवपुर वाराणसी उम्र 37 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

08 अदद मूल कूटरचित दस्तावेज, 02 अदद एयरटेल कम्पनी का आईकार्ड, अभियुक्त का आधार कार्ड व पैन कार्ड की छायाप्रति, एक अदद सैमसंग मोबाइल फोन टूटा हुआ, एक अदद मोबाइल आई फोन सिम लगा हुआ, 13 अदद रबड मुहर भिन्न-भिन्न नामों से, 2 अदद एयरटेल एक अदद जियो व एक अदद वोडफोन का कुल 4 अदद सिम, 1 अदद इंक पैड, हस्ताक्षर अभ्यास का पेपर 2 अदद व एक अदद लैपटाप डेल कम्पनी का तथा 630 रुपये नगद बरामद।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- 1-उ0नि0 प्रदीप कुमार यादव थाना शिवपुर कमिश्नरेट वाराणसी ।
- 2-उ0नि0 स्वतंत्र सिंह थाना शिवपुर कमिश्नरेट वाराणसी ।
- 3-प्रशिक्षु उ0नि0 सत्य देव थाना शिवपुर कमिश्नरेट वाराणसी ।
- 4-का0 सिकन्दर थाना शिवपुर कमिश्नरेट वाराणसी ।
- 5-का0 हस्बुल तलब थाना शिवपुर कमिश्नरेट वाराणसी ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी

